



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 482 राँची, बुधवार, 29 ज्येष्ठ, 1941 (श०)
19 जून, 2019 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

7 जून, 2019

संचिका संख्या-07/न०वि०आ०/विविध/05/2017(पार्ट)-2296-- राज्य सरकार द्वारा हाऊसिंग बोर्ड एवं खास महाल के इकाई/फ्लैट के आवंटी को सम्पदा का आवंटन स्थायी पट्टा पद्धति से फ्री होल्ड के रूप में परिवर्तन की सैद्धान्तिक सहमति दी जाती है। उपरोक्त आलोक में संगत शर्तों एवं बंधेजों के निर्धारण हेतु निम्न रूपेण समिति का गठन किया जाता है:-

- i. विकास आयुक्त, झारखण्ड - अध्यक्ष
- ii. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड - सदस्य
- iii. सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड - सदस्य
- iv. सचिव (संसाधन), योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड - सदस्य

2. उपरोक्त पर मंत्रिपरिषद् के दिनांक-06.03.19 की बैठक में मद संख्या-34 में "अन्यान्य" के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।
